

Date: 28/10/2022

To,
The Listing Compliance Department,
BSE Limited,
P J Towers, Dalal Street,
Mumbai – 400001
Scrip Code: 534809

To,
The Listing Compliance Department,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai – 400051
Symbol: PCJEWELLER

Sub.: Newspaper publications made pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir / Ma'am,

Please find enclosed herewith the newspaper publications made by the Company pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 on October 28, 2022 in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) regarding un-audited financial results of the Company for the quarter ended September 30, 2022.

Kindly take the same on record.

Thanking you.

Yours sincerely,
For PC Jeweller Limited
VIJAY
PANWAR
PANWAR
(VIJAY PANWAR)
Company Secretary

Encl.: As above

## PC Jeweller Limited

### **EXPLAINER**

### NAA'S BEEN REDUNDANT, MARKETS BEST REGULATED UNDER ANTITRUST LAW

The National Anti-profiteering Authority (NAA) is dying a natural death, even as the courts are yet to decide on a clutch of pleas contesting the body's raison d'être and constitutionality. Set up under the CGST Act in 2017, it will cease to exist effective December; unresolved cases will be taken up by the Competition Commission of India. The government has defended NAA's role, in view of increases in inflation after the rollout of GST or similar value-added taxes buttressed with input tax credit mechanism in many countries. Similar set-ups in Malaysia and Australia were cited. Prasanta Sahu reviews NAA's role in the GST regime.



Why is NAA being merged with CCI

As per Rule 137 of the CGST Rules, the authority was supposed to cease to exist after the expiry of two years from the date on which the experience of the provided that the provided that the experience of the provided that the p

it was set up. This period was extended subsequently by three

subsequently by three years by the GST Council till November 2022. The CCI will be empowered under Section 1.71 of CGST Act, 2017, to take up GST-rated cases. The anti-trust watchdog's

anti-trust watchdog's

mandate, as is the alobal practice, is to

eliminate practices

eliminate practices hurting competition and guard against abuse of dominant market power to protect the interests of the consumers and ensure freedom of trade. The revenue department will provide adequate technical.

adequate technica manpower to CCI to handle the additional vorkload related to GST.

### Why was NAA set up?

■It was set up under the Central Goods and Services Tax Act in November 2017, while GST was launched in July that year. Its stated purpose is that year. Its stated purpose is to ensure that any reduction in GST rates or the benefit of input tax credit is passed on to the recipient by way of commensurate reduction in prices. The immediate trigger for the formation of NAA was rate reductions for over 200 items by the GST Council in its 23rd meeting at Guwahati in November 2017. Five years of NAA have been eventful - it has taken up hundreds of cases ranging from real estate, construction, electronics and DTH to healthcare, hospitality and cosmetics.

### How has its performance be

■ As against the 208 cases pending before the authority as on March 31, NAA has issued orders in 80 cases so far. At the end issued orders in 80 cases so far, Atthe end of March this year, the DGAP had another 34 cases where the investigation was in progress while the standing committee and SLSCs had 29 and 94 cases pending disposal, respectively.

### ₹450 crore

nount DTH service provide Tata Play was asked to deposit for profiteering

### ₹186 crore

Writ petitions before many high courts have challenged the constitutional validity of anti-profiteering regulations

What is its structure and how does it function?

The active profiteering mechanism is multi-layered, comprising state-level screening committees (SLSCs) which examine state-level complaints and recommend them to the standing committee. The standing committee also receives complaints directly with respect to suppliers with a pan-India or multi-state presence. The standing committee examines and standing committee examines and sends recommendations to the DG, anti-profiteering (DGAP). The DGAP completes the investigation within three months and furnishes a report of its findings to NAA. Based on the report, NAA determines all aspects relating to profiteering, passes its order regarding reduction in prices, return of amount profiteered. It also imposes penalty and cancels registration if it thinks profiteering is established. standing committee examines and

■ Section 171 of the CGSTAct says the council may constitute an ■ Section 1/1 of the CGS1 Act says the council may constitute an anti-profiteering authority or empower an existing authority (like CCI) constituted under any law. As many as 136 writ petitions have been filed by various parties before various high courts, including Delhi, Bombay, Madras, Kolkata, Allahabad, Karnataka and Gujarat, challenging the constitutional validity of anti-profiteering regulations. The petitioners include Hindustan Unilever, Jubilant Foodworks, Abbott, Nestle, Whirlpool, IFB, and Johnson & Johnson.

## First test flight of Gaganyaan in Feb: Isro

THE INDIAN SPACE Research Organisation (ISRO) will start a series of test flights for India's maiden human space flight mis-sion from February next year, an official said on Thursday. The space agency also plans to deploy the heavy lift Chinook helicopter and the C-17 Globemaster transport aircraft for testing the crew module, which will carry astronauts into the orbit for three days as part of the Gaganyaan human space flight mission, R Umamaheshwaran,

director of Isro's Human Space

director of isro's rulman space Flight Centre, said. Addressing the India Space completed the design of the environment control system, which will ensure ambient living conditions in the crew service modulewhen orbiting the earth.



S.	Particulars	Quarter Ended 30.09.2022	Half Year Ended 30.09.2022	Quarter Ended 30.09.2021 Unaudited	
No.		Unaudited	Unaudited		
1.	Total Income from Operations	897.58	1445.00	559.7	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	79.18	111.73	(77.89	
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptiona) and/or Extraordinary items)	79.18	111.73	(77.89	
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	85.92	160.35	(78.89	
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	88.79	164.66	(79.24	
6.	Equity Share Capital	465.40	465.40	485.4	
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				
8.	Earnings Per Share (of ₹10/- each)	(Not annualised)	(Not annualised)	(Not annualised	
	1. Basic:	1.85	3.45	(1.70	
	2. Diluted:	1.85	3.45	(1.70	

Quarter Ended 30.09.2021 Total Income from Operations (75.27)

The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter and six months ended September 30, 2022 filled with the Stock Exchanges under Requisitions 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter and xx months ended September 30, 2022 are available on the websites of SES Limited (www.besindia.com/, National Stock Exchange of India Limited (www.resindia.com/, and/orth www.besindia.com/, and/orth www.besindia.

# **EXPRESS** lained.Live



## China after the Party Congress



In conversation



Vijay Gokhale


The 20th National Congress of the Communist Perty of China has confirmed Xi Jinping as General Secretary for a third five-year term. No leader of China since Mao Zedong has ruled for more than two terms.

What does this mean for China — it's politics; economy, military and its people? What is its impact on global politics at a time of geopolitical flux and disruption? What does that mean for India, which shares a long and contested border with China?

Listen to Vijay Gokhale, former Foreign Secretary and India's former Ambassador to China, at the latest edition of Explained.Live at The Indian Express.

For a major part of his 39-year career, Gokhale focussed on China — either through diplomatic assignments in the country or at the Ministry of External Affairs in New Delhi. After his retirement, Gokhale has authored three books, "The Long Game: How the Chinese Negotiate with India," Tiananmen Square: The Making of a Protest' and, most recently, "After Tiananmen: the Rise of China"









To register, SMS - IEEXP <space> "IE" <space> "Your name and email ID" to 56161 Confirmation SMS will be your registration



Note: IndianExpress.com/apps

financialen epan.in



twitter.com/IndianExpress





जनसता 28 अक्तूबर, 2022

सर्योदय- 06:30

योग कक्षा की फाइलों की मंजूरी को लेकर टकराव

नई दिल्ली 🦳

राजधान

# दिल्ली में एक नवंबर से बंद हो सकती हैं योग कक्षाएं

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 27 अक्तूबर

मंजूरी नहीं मिलने की वजह से एक नवंबर से दिल्ली भर में योग कक्षाओं के बंद होने का संकट है। कोरोना संक्रमण काल में शुरू की गई योग कक्षाओं की फाइलों को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंजूरी नहीं दी है। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को यह शुरू की गई योग कक्षाओं की फाइलों को विज्ञान के प्रतिकार के प्रतिक

'मदनपुर खादर का

झगड़ा रोहिंग्या समुदाय का मामला नहीं जनसत्ता संवाददाता

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में कार का शीशा तोड़ने को लेकर हुए झगड़े में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर लियाँ है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि बुधवार को हुई घटना से रोहिंग्या समुदाय के किसी भी सदस्य का कोई ताल्लुक

नहीं है। मालूम हो कि यहां रोहिंग्या शरणार्थियों के एक समूह ने उनके तम्बुओं के पास स्थित एक गैराज में काम करने वाले

कुछ लोगों पर उन्हें अपशब्द कहने और पीटने का आरोप

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर।



*मुख्यमंत्री* का आरोप, योगशाला को बंद कराने की साजिश कर रही भाजपा

कि ये लोग (भाजपा) इतनी गंदी राजनीति पर उतर आए हैं।

पर उत्तर आए हैं।

वहीं, उपमुख्यमंत्री मनीष सिस्तीदिया ने
ट्वीट कर कहा कि दिल्ली में योगा क्लास
बंद किए जाने को लेकर शुक्रवाद को
उपराज्यपाल से मिल्ला। उन्होंने कहा कि
योगा कक्षा की फाइल राज्यपाल के पास है।
अगर इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं की
मंत्र तो मंगलवार से दिल्ली में योगा क्लास
बंद हो जाएगी और इससे हजारों लोगों को

प्रयोग करने जैसी स्थिति में नहीं है। सांसद छत्तरपुर के भाटी माईन्स क्षेत्र में स्कूल की जांच के लिए एडंने थें भू जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 27 अक्तूबर दक्षिणी दिल्ली के स्कूलों में छात्रों को पीने के पानी के संकट का सामना करना पड़ रहा है। यह मामला गुरुवार को सांसद रमेश

पहुँचे थे। पहुँचे थे। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व छह माह पूर्व हुए निरीक्षण में भी ऐसे ही गड़बड़ियां सामने आई थीं। भामला गुरुवार का सासद रमश बिधूड़ी के सरकारी स्कूलों में किए गए दौरे में सामने आया है। उन्होंने बताया कि स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था बदहाल है। हालात यह है कि पानी की टॅकियां खुली हुई हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल के शौचलय भी

एस हा गड़बाड़पा सामन आइ था। यह दुंभाग्य की बात है कि सरकार का ध्यान सरकारी स्कूलों की सेवाओं को बेहतर बनाने की तरफ नहीं हैं। बिधूड़ी ने कहा कि अब मुख्यमंत्री दिल्लो की तरह गुजरात के लोगों को भी मुफ्त सेवाओं का झांसा दे रहे हैं।

# 'दक्षिणी दिल्ली के स्कूलों में पानी का संकट' युवक की चाकू घोंप कर हत्या

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर।

दक्षिण-पूर्वी जिले के बदरपुर

विधा-पूर्वी जिलं के वररपुर थाना क्षेत्र इलांके में एक युवक की चाकू घोंप कर हत्या का मामला सामने आया है। घटना वररपुर थाना क्षेत्र के मोलरबंद गांव के विलासपुर कैंप के पास की है। बुधवार देर रात युवक लाहुलुहान हालत में विलासपुर कैंप के पास मिला। उसके शरीर एर कई जगह चाकू

शरीर पर कई जगह चाकू से हमला किया गया। बुधवार देर रात युवक लहूलुहान हालत में विलासपुर कैंप के पास मिला।

त हमला किया गया था। लहुलूहन हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

# पंजाब नेशनल बैंक <mark>थि pnb</mark> punjab national bar

अचल संपत्ति(यों) का विवरण



RERA REGISTRATION NO.: RC/REP/HARERA/GGM/374/106/2019/68 Dated 12.09.2022 (www.haryanarera.gov.in)

राहर एवं प्राप्त नियोजन विमान, हरियाना सरकार की 13,08,2013 दिनांक अधिसूतना सं. PF-27/48921 और उसमें संशोधन के अनुसार एरिससिस नीति के नियमों और तहीं पर क्लिसिस किए जा रहे अफोबेबन युव हार्जिया प्रोजेयर के तहत आजातीय जागरीन की बुद्ध स्वतंसामारण से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। (विवल्ण विभागीय बेबायाई प्रदेशकार कुछ तहीं के विवस्था प्रोजेस्ट के तिदरण

1. कॉलोनाइजर/डेवलपर	सिग्नेवरग्लोबल (इंडिया) लिमिटेड
<ol> <li>ब्रोजेक्ट को प्राप्त स्वीकृति</li> </ol>	अविशिक्त लाइचेंस रांच्या 2020 का 40 दिनाकित 11.12.2020 जो पहले से स्वीकृत लाइचेंस संच्या 2019 का 69 दिनाकित 26.08.2019। संबोधित पटन योबना स्वीकृत दिनाकित 27.09.2021 प्राप्त सं. ZP-1336HAD(AZ)/2021/204247. RC/REPH-HAREFAA/GM374/1062019368 दिनाकित 14.11.2019 में संबोधन के परिणय स्टब्स्य संबंधित RC/REPH-HAREFAA/GM374/1062019368 दिनाकित 14.19.202022 जो कि नोशिस्त तोब 27.497.5 एकड़ के साथ ज्युगोदित है
3. रथान	चेक्टर 63A, गुरुयाग, हरियाणा।
<ol> <li>प्रोजेक्ट के क्षेत्रफल संबंधी प्रावधान</li> </ol>	6.4875 एक के संशोधित क्षेत्र में फैंकी जावाल योजना में यूज बरण में 714 इकाइयों के जितिषक जुल 163 इकाइयों में से उपलब्ध 103 अतिरिक्त अपार्टमेंट की संख्या है। इसमें से मीलिसी अनुसार 55% चर्चन मेंनेजमेंट कोटे में आरंक्षित हैं और 95% अपार्टमेंट अनंबतासाल्या के तितर हैं। मनुसार मुख्यियाई : 2000 अपोष्टर का एक मानुसार मधन और 2000 अपोष्टर का एक ऑननसाटी-सह-केश

कैटेगरी (टाइप)	यूगिट की संख्या	कारपेट एरिया वर्गमीटर (लगमग)	कारपेट एरिया वर्षफुट (लगभग)	बाल्कनी एरिया वर्गमीटर (लगमग)	बाल्कनी एरिया वर्गफुट (लगमग)	अपार्टमेंट के एलॉटमेंट की दर (सब मिला कर)	आवेदन के साथ बुकिंग की राशि 5%*	एलॉटनेंट पर 20%
2BHK TYPE-1	25	53.29	573.54	8.42	90.59	2499458	120443.4	504421.1
2BHK TYPE-2	25	54.88	590.66	8.2	88.26	2569032	124038.6	518219.4
2BHK TYPE-3	21	53.71	578.13	7.1	76.42	2504566	121407.3	504734.2
2BHK TYPE-4	25	53.65	577.41	8.21	88.4	2513522	121256.1	507124.4
3BHK TYPE-5 (5 UNITS FOR MQ)	7	59.97	645.46	9.43	101.53	2810932	135546.6	567186.4

\*sort अस्तिखित पर में जीएवटी और अन्य शुरूक जैये स्टान्प काटी, पंजीकरण शुक्त जायि शामिल नहीं हैं। देव शेष राशि परियोजना के निर्माण सिंक मुनतान योजना के अनुसार देव राशि के बराबर होगी जैसा कि प्रासंगिक समय पर निर्माण चरण के संदर्ग में लागू होता हैं

<ol> <li>पार्किंग</li> </ol>	प्रत्येक अपार्टमेंट के लिए दुपहिया वाहन पार्किंग।
7. अपार्टमेंट के बारे में सामान्य विवरण	- प्रसोशिय: कमरों में विद्विभाइत टाइस्त, कियान में विद्विभाइत/शिशामिक टाइस्त, टॉयलेट में एटी सिकड शिशामिक टाइस्त, सरकानी में एटी सिक्ट/मेट किमिस शिशामिक टाइस्त, मेटकानी में उन्होंने के अनुसार M.S. सेवामा/अस्त्रीमियम पाउटस कोटेड/UPVC के उत्ताद कर के क्यूनिया मात्र कर कोटेड/UPVC कोड़ टाइस्ट, में के महिंदी के विद्यार के किस मात्र के में दिन्हों के महिंदी के मिला के किस के मात्र के मिला के
<ol> <li>आवंदन की समय सीमाएँ</li> </ol>	- विजोक 21.00.002 में दे-ह्या द्वारा अगसा बुकाइयों के वार्यटन के सिए आपेदन जन्म करने के लिए दीमीयी वेससाइट (https://odraw.tcpharyana.gov/nhtps-dmailmon) पर जीनवाइन जायेवन करें। व्यक्ति आगकारी के लिए कींस करें। 7055—121—121 - वार्यदन पर वच्या करने की ऑक्स विदेश (०.11.2022 हैं)

हक परिति के तमने तोड़ी है होगा। परिति में वजपुरत या उनके प्रतिभिन्ने (श्रृहतन हरियामा तोक रोज रहा के अधिकारी, परिव नगर टीवी जीर सबद कोलोमहाइन के प्रतिनिधि होगे। 2 जीटी की तिथि गियारित करने के बाद केवलपा उसी समावार पत्र में डिवारन विकास में आंदरनों को लोटी भी तिथि और त्याम के दिवसन दिए जाएँग। 3. मनकों जी पूरी जानकी जो राजस्थिक जीन और अधिकेदक अपनेदेश मां प्राविश्य नीविश्य जोड़ के विकास देशे जो 10 00.2015 दिनाशित अधिकृतमा से PF-27/48921 और योगासाइन (topharyana.gov.in पर उपस्तव हैं)।







**©** 7053-121-121

Disclaimer: Promoter urges every applicant to inspect the project site and shall not merely rely upon any architectural impression, plan or sales brochure and, therefore, requests to make personal judgment prior to submitting an application for allotment. Unless otherwise stated, all the images, visuals, materials and information contained herein are purely creative/artistic and may not be actual representations of the product and/or any amenities. Further, the actual design may vary in the fit and finished form, from the one displayed above. Journey time shown, if any, is based upon Google Maps which may vary as per the traffic at a relevant point of time. "Rate mentioned above does not include GST and other statutory charges, if applicable, T.&.C. Apply, 1 sq. mt. — 10.7539 sq. ft.

# PC Jeweller Limited

S.	Particulars	Quarter Ended 30.09.2022	Half Year Ended 30.09.2022	Quarter Ended 30.09.2021		
No.		Unaudited	Unaudited	Unaudited		
1.	Total Income from Operations	897.58	1445.00	559.74		
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	79.18	111.73	(77.89)		
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	79.18	111.73	(77.89)		
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	85.92	160.35	(78.89)		
5,	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	88.79	164.66	(79.24)		
6.	Equity Share Capital	465.40	465.40	465.40		
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			142		
8.	Earnings Per Share (of ₹10/- each)	(Not annualised)	(Not annualised)	(Not annualised)		
	1. Basic:	1.85	3.45	(1.70)		
	2. Diluted:	1.85	3.45	(1.70)		

Key figures of un-audited standalone financial results: (₹ in cre					
S.	Particulars	Quarter Ended 30.09.2022	Half Year Ended 30.09.2022	Quarter Ended 30.09.2021	
No.	1	Unaudited	Unaudited	Unaudited	
1.	Total Income from Operations	836.01	1357.16	558.95	
2.	Net Profit / (Loss) for the period before tax	65.60	83.18	(75.27)	
3.	Net Profit / (Loss) for the period after tax.	73.02	133.01	(75.83)	

The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter and six months ended September 30, 2022 filled with the Stock Exchanges under Regulation 3.0 of the SEBI (Listing Collegations and Disclosure Requirements) regulations, 2013. The fill timed of the financial results for the quarter and is normative model September 30, 2022 are available on the websites of SEB Limited (www.besterdia.com), National Stock Exchange of final limited view, resinded.com) and on the website for Exchanger at the United September 2014 (September 2014).

कॉर्पोरेट कार्यालयः 254-260, AVVAI शनमुगम सलाई, रोयापेटा चेन्नई-600014

ाधापट कायाज्य सम्प्रतिक्ष के क्या परिष्ठाट № क. (नियम 8(s) का परन्तुक देखें) अचल सम्मतियों के बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस प्रतिकृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(s) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आसियाँ का प्रतिभूतिकाण और पुनर्गित काय प्रतिभृति हित का प्रवर्तन केविनयम, 2002 के कथीन अधल सम्पतियों के बिक्रम हेतु ई-नीलामी विक्रय सुपना अधन सम्पतियों के किए केविनय केविनयम, 2002 के कथीन अधल सम्पतियों के बिक्रम हेतु ई-नीलामी विक्रय सुपना अधन स्वर्तन अधिनयम, 2002 के कथीन अधल सम्पतियों के विक्रम हेतु ई-नीलामी विक्रम सुपना अधन स्वर्तन अधिनयम, 2002 के कथीन अधल सम्पतियां को अधन प्रतिकृत हैन अधन स्वर्तन अधिनयम, 2002 के कथीन अधल सम्पतियां को अधिन स्वर्तन अधिनयम, 2002 के कथीन अधल सम्पतियां को अधिन स्वर्तन अधिन स्वर्तन अधिन स्वर्तन स्वरत्व स्वर्तन स्वर्तन स्वर्तन स्वर्तन स्वर्तन स्वर्तन स्वर्तन स्वर्तन स्वरत्व स्वर्तन स्वर्तन स्वर्तन स्वर्तन स्वरत्व स्वर्तन स्वरत्व स्वर्तन स्व

क. सं.	उधारकर्ता/पार्टनर्स/प्रोपशईटन/ गारंटर/बंधककर्ता/ निदेशक दृष्टिक्धक/कानूनी उत्तराधिकारी का नाम	अचल / चल सम्पत्तियों का विवरण	सम्पत्ति आईडी	प्रत्यामूल ऋण की राशि	आरक्षित मृत्य धरोहर जमा राशि न्यूनतम बोली वृद्धि राशि	संपत्ति और काराजात के निशीक्षण हेतु तिथ्वि और समय	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	प्राधिकृत अधिकारी का नाम	संपत्ति पर भार का विवरण, यदि कोई झात / ज्ञात नहीं
1	श्री वीरेंद्र पुत्र शिय लाल     श्री अपेटी कमलेश पानी औ वीरेंद्र     श्री अपेटी कमलेश पानी औ वीरेंद्र     श्री रचेंग कुमार पुत्र शिय लाल (शाखाः पलवल)	विहानसी मकान जोकि यु कॉलोनी एक्सर्टेशन, चतुरापुर रोक शामित जेवत / जाता मुं 2300/2724-2775, मुस्तित न 241, किला नं 3/4(3-8),4/1(4-5),7/5(1-7),8/1(0-15) युनिशीयत जिमेट प्रतब्द के अंतर्गत, यह सम्बद्धि श्री विरुद्ध के नाम पर है।	IDIB10617708055	रु. 10,47,627/- दिनाक 04.12.2019 तक और साथ में गविष्य का व्याज, अन्य प्रभार इत्यादि पूर्ण युकौती की तिथि तक	र. 48.45 लाख र. 4.85 लाख र. 0.25 लाख	07-11-2022 पूर्वोड 10.00 बजे से अपीड 05.00 बजे तक	16.11.2022 को पूर्वाइ 11.00 बजे से अपीड 05.00 बजे तक साथ में प्रत्येक 10 मिनट का असीनित विस्तार		बँक को ज्ञात नहीं
2	श्रीमती गीता वर्मा पत्नी रमेश चंद     श्री रमेश चंद पुत्र चुन्नी लाल     श्री खंदर सेन वर्मा पुत्र श्री थमन लाल (शाखा: पलवल)	रिवाको करून जेकि 5 / 152, जुल जूमि शेजरूत 3 कानाज । गारता का भाग मुस्तिक सं. 443 में, किला में 6(2-4) 12/1 (1-1) किसी विलेख में 3452 दिगांकित 11082010, कृष्णा करोलीं। प्रवास इंदियाल ने रिस्ता, व्हा करानी गीता बसी प्रतास इंदियाल ने रिस्ता, व्हा करानी गीता बसी पानी सोश बंद के नाम पर है। (शेजकर 50 वर्ण जन)	IDIB10617647910	रु. 9,49,182/- दिनांक 0408,2021 तक और साथ में भविष्य का व्याज, अन्य प्रशार इत्यादि पूर्ण चुकौती की तिथि तक	₹. 17.00 लाख ₹. 1.70 लाख ₹. 0.25 लाख	16-11-2022 पूर्वाइ 10:00 बजे से अपॉड 05:00 बजे तक	29.11.2022 को पूर्वाङ 11.00 बाते से अर्थाङ 05.00 बजे तक साथ में प्रत्येक 10 मिनट का असीमिस विस्तार		बैंक को ज्ञात नहीं
3	श्रीमती प्रकाशी पत्नी सत्तवीर सिंह     श्री रविंदर सिंह पुत्र सत्तवीर सिंह (शास्त्राः सेहतक ईएवी)	शिवामी कारण केवित परीट भी 1. मिन छोता में 118/86 मिन का पूर्वी हिस्सा, व्यतीनी त. 176मिन, किता में 24/18. मीजा कोदेवी पत्था कोदोनी, छोटी पुगम भाग मंदिर की पत्थ, विद्यो वाली गत्थी, कन्होंनी रोडा दोरावड़, इरियाण में विश्वा, वह सम्पर्धि अरुवाड़ी देवी के नाम मर है (शेवकल 8233 वर्ग गज)	IDIB30045904750	रु. 5,96,898/- दिनांक 06.02.2019 तक और साथ में भविष्य का व्याज, अन्य प्रभार इत्यावि पूर्ण सुकौती की तिथि तक	र.14.74 लाख र.1.48 लाख र.0.25 लाख	16-11-2022 पूर्वीस्ट 10.00 यजे से अपीड 05.00 यजे तक	29,11,2022 को पूर्वाइ 11,00 बजे से अपीड 05,00 बजे तक साथ में प्रत्येक 10 मिनट का असीमित विस्तार		बैंक को ज्ञात नहीं
4	श्री तरुण धमीजा पुत्र तीरथ राज धमीजा     श्रीमती मानवी पत्नी तरुण धमीजा     श्रीमती मानवी पत्नी तरुण धमीजा     श्री तीरथ राज पुत्र श्री रमेश चंद     (शाखाः ओल्ड फरीदाबाद)	रिहायशी मकान जीकि प्रथम तद्म मकान नं 480, संप्रदान-22, हालसित बीढं जीक्सी, फरीबान इरियाण में दिख्य, पढ़ साथपित श्री तरक्ष धमीजा और श्रीक्सी मानवी धमीजा के नाम गर है। (क्षेत्रकल 1152.00 वर्ग कीट)	IDIB30187468926	रु. 39,28,836/- दिनांक 05.03.2018 तक और साथ में मविष्य का व्याव्य अन्य प्रभार इत्यादि पूर्ण युकाती की तिथि तक	₹. 45.00 लाख ₹. 4.50 लाख ₹. 0.25 लाख	16-11-2022 पूर्वाह 10:00 बजे से अपोह 05:00 बजे तक	29.11.2022 को पूर्वाह 11.00 बजे से अमीड 05.00 बजे तक साथ में प्रत्येक 10 मिनट का असीमित विस्तार		बैंक को जात नहीं
5	मैसर्स प्रकाश टूल्स एड हार्ड्वर     औ सूरज पुत्र श्री जवमाल कटारिया     अो जवपाल कटारिया पुत्र श्री चंदन सिंह कटारिया (शाखाः आईएमटी मानेसर)	व्ययस्थिक सम्पन्ति न 103C741U378 जोकि प्रति न 1,945/29, टीमीएस श्री रूम, व्यस्त्य नं, 2720/2907 का दिस्सा, द्वान चीप प्राप्त्यी स्कूल के विपरीत, लक्षमण विहार, फेज-1, मुख्याँव, हरियाणा में रिश्वत, (शेत्रकल 83.64 वर्ग मी. या 100 वर्ग मण)	IDIB3287897624	रु. 21,87,066,99 दिनांक 31,07,2020 तक और साथ में मविष्य का व्याज, अन्य प्रभार इत्यादि	₹. 159.00 लाख ₹. 15.90 लाख ₹. 0.25 लाख	16-11-2022 पूर्वा६ 10:00 बजे से अर्पाइ 05:00 बजे तक	29.11.2022 को पूर्वाइ 11.00 बजे से आर्थाइ 05.00 बजे तक साथ में प्रत्येक 10 मिनट का असीमित यस्तार	भी दुर्गा राव	बैंक को ज्ञात नहीं

9988359909 गैर नियम एवं शर्ते : 1 श्री प्रवीन कुमार मुख्य प्रवंधक (मो २ श्री मुकेश जागिड, वरिष्ठ प्रवंधक (मो. **9829743273**)

प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बँक

Place: New Delhi Date: October 27, 2022